



क्र.ए.एम.जी.-III,मु.-II/लेखे/MGVCL/2021/0.0. 1100

11/11/21

सेवा में,
प्रबंध निदेशक
मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड,
सरदार पटेल विद्युत भवन, रेस कोर्स,
वडोदरा-390007.

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए Madhya Gujarat Vij Company Limited के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।


महोदय,

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए Madhya Gujarat Vij Company Limited के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 (6) (बी) के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 'शून्य टिप्पणी का प्रमाण पत्र', कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक में रखने के लिए संलग्न पाएं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 (6) (बी) के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को कंपनी के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ उसी तरह और उसी समय वार्षिक साधारण बैठक में रखना अनिवार्य है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को वार्षिक साधारण बैठक में रखने की तिथि इस कार्यालय को सूचित करें।

कृपया, मुद्रित लेखों की छः प्रतियाँ इस कार्यालय के प्रयोग और अभिलेख के लिए भिजवाएं। अनुलग्नक सहित इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,


10/11/2021

उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-3)

संलग्नक: यथोपरि


**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE
FINANCIAL STATEMENTS OF MADHYA GUJARAT VIJ COMPANY LIMITED FOR
THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021**

The preparation of financial statements of **Madhya Gujarat Vij Company Limited** for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 22 September 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **Madhya Gujarat Vij Company Limited** for the year ended 31 March 2021 under Section 143 (6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under Section 143 (6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India



(H. K. Dharmadarshi)
Principal Accountant General (Audit-II), Gujarat

Place: Ahmedabad

Date: